



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 आषाढ 1946 (श0)
(सं0 पटना 582) पटना, शुक्रवार, 5 जुलाई 2024

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

10 जून 2024

सं० 1स्था०-33/2024-1642/वि०स०--बिहार विधान सभा सचिवालय के अधिसूचना संख्या-927, दिनांक 13.03.2024 द्वारा संविदा के आधार पर निदेशक एवं अन्य पदों पर नियोजन हेतु गठित चयन समिति की दिनांक-30.05.2024 की बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-10000, दिनांक 10.07.2015 में निहित प्रावधान के तहत की गयी अनुशंसा के आलोक में दिनांक-30.06.2024 को सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक, श्री राजीव कुमार को निम्नलिखित शर्तों के साथ दिनांक-01.07.2024 से अगले एक वर्ष यानि 30.06.2025 तक संविदा आधारित नियोजन किया जाता है :-

- यह नियोजन योगदान की तिथि से प्रथमतः एक वर्ष के लिए होगी । प्रोन्नत पद पर सरकारी सेवक की प्रोन्नति होते ही प्रोन्नति के पद पर किया गया नियोजन समाप्त कर दिया जायेगा ।
- संकल्प की कंडिका-3(2)(क)(vi) के तहत कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं होने पर संविदा रद्द की जा सकेगी ।
- संकल्प की कंडिका-3(5) के तहत योगदान के समय सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।
- संकल्प की कंडिका-3(6)(i) के अनुरूप मासिक मानदेय देय होगा । कंडिका-3(6)(ii) के तहत यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा । कंडिका-3(6)(iv) के तहत सेवानिवृत्त और संविदा नियोजन के बीच वेतन / पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा ।

मानदेय का भुगतान सभा सचिवालय के मुख्य बजट शीर्ष के विपत्र कोड के अंतर्गत संविदा सेवायें के लिए अदायगियाँ इकाई में उपबोधित राशि से किया जायेगा ।

- (च) संकल्प की कंडिका-(4) के तहत पदीय शक्तियाँ प्राप्त रहेंगी ।
- (छ) संकल्प की कंडिका-(5) के तहत आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवकों की भाँति क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा ।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,
संजय कुमार,
अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 582-571+10-डी0टी0पी0 ।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>